

प्रेस नोट दिनांक - 09.06.2021

थाना अलीगंज जनपद बरेली।

थाना अलीगंज #Bareillypolice द्वारा दो अभियुक्तगण 1.जय सिंह व 2.प्रेम सिंह को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 800 ग्राम अफीम (अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख 40 हजार रूपये), दो अदद तमंचा व 04 कारतूस, एक अदद मो0सा0 व दो अदद मोबाइल बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेश के अनुपालन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जनपद बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला महोदय जनपद बरेली के पर्यवेक्षण में थाना अलीगंज, बरेली पुलिस के उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार राघव, उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र, का0 2998 विजेन्द्र कुमार, का0 2799 अंकित कुमार दिनांक 09.06.21 को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिये मास्क चैकिंग एवं तलाश वांछित अपराधी कर रहे थे, कि उसी समय अलीगंज पेट्रोल पंप से 100 मी0 आगे महोलिया की तरफ से दो व्यक्ति मो0सा0 पर आते दिखाई दिए जिन्हें रोक कर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो दोनो ने अपने नाम क्रमशः 1.जय सिंह पुत्र नौबत राम नि0 मटियार थाना अलीगंज जिला बरेली 2.प्रेम सिंह पुत्र परमीलाल नि0 ढकिया थाना अलीगंज जिला बरेली बताए। उपरोक्त को चैक किया तो उनके पास से 800 ग्राम अफीम व 02 अदद तमंचा क्रमशः 315 बोर व 12 बोर, 04 अदद कारतूस एक अदद मो0सा0 स्पेण्डर बरामद हुई। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 लाख 40 हजार रूपये है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध मे थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0-136/21 व मु0अ0सं0-137/21 धारा 8/18 NDPS ACT व मु0अ0सं0-138/21 व मु0अ0सं0-139/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम 1.जय सिंह पुत्र नौबत राम नि0 मटियार थाना अलीगंज जिला बरेली 2. प्रेम सिंह पुत्र परमीलाल नि0 ढकिया थाना अलीगंज जिला बरेली पंजीकृत कराया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तगणो को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.जय सिंह पुत्र नौबत राम नि0 मटियार थाना अलीगंज जिला बरेली।
- 2.प्रेम सिंह पुत्र परमीलाल नि0 ढकिया थाना अलीगंज जिला बरेली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 800 ग्राम अफीम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख 40 हजार रूपये ।
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर।
3. एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर।
4. एक अदद मोटर साईकिल स्पेण्डर ।
5. दो मोबाइल वीवो कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार राघव थाना अलीगंज जनपद बरेली।
- 2.उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना अलीगंज जनपद बरेली।
- 3.का0 2798 विजेन्द्र थाना अलीगंज जनपद बरेली।
- 4.का0 2799 अंकित कुमार थाना अलीगंज जनपद बरेली।